



Staff Selection Commission
(Government Of India)

QID : 101 - In the following question, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select 'No Error'.

I was (1)/ a pilot (2)/ here a month ago. (3)/ No error (4)

Options:

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

Correct Answer: 4

Candidate Answer: 1

QID : 102 - In the following question, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select 'No Error'.

The scientific need for simple, stable and internationally (1)/ accepted systems for naming objects of the natural world has been (2)/ generated many formal nomenclatural systems. (3)/ No error (4)

Options:

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

Correct Answer: 2

Candidate Answer: 2

QID : 103 - In the following question, the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option.

He was not ready _____ the promotion.

Options:

- 1) for
- 2) in
- 3) of
- 4) because

Correct Answer: for

Candidate Answer: for

QID : 104 - In the following question, the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option.

One can understand the importance of faith by _____ a world without faith.

Options:

- 1) discovering
- 2) identifying
- 3) imagining
- 4) interpreting

Correct Answer: imagining

Candidate Answer: imagining

QID : 105 - In the following question, out of the given four alternatives, select the one which best expresses the meaning of the given word.

Terse

Options:

- 1) Brief
- 2) Prolix
- 3) Lengthy
- 4) Wordy

Correct Answer: Brief

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 106 - In the following question, out of the given four alternatives, select the one which best expresses the meaning of the given word.

Poignant

Options:

- 1) Emotional
- 2) Soothing
- 3) Cold
- 4) Luxurious

Correct Answer: Emotional

Candidate Answer: Luxurious

QID : 107 - In the following question, out of the given four alternatives, select the one which is opposite in meaning of the given word.

Usurp

Options:

- 1) Annex
- 2) Displace
- 3) Grab
- 4) Surrender

Correct Answer: Surrender

Candidate Answer: Surrender

QID : 108 - In the following question, out of the given four alternatives, select the one which is opposite in meaning of the given word.

Clammy

Options:

- 1) Sweaty
- 2) Wet
- 3) Misty
- 4) Dry

Correct Answer: Dry

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 109 - Rearrange the parts of the sentence in correct order.

During the restoration,

P : ancient institutions were to

Q : changing but traditional society

R : be the corner stones of a

Options:

- 1) QPR
- 2) PRQ
- 3) RQP
- 4) PQR

Correct Answer: PRQ

Candidate Answer: PRQ

QID : 110 - A sentence has been given in Active/Passive Voice. Out of the four given alternatives, select the one which best expresses the same sentence in Passive/Active Voice.

She saw you and her.

Options:

- 1) You and she was seen by her.
- 2) You and she were seen by her.
- 3) You and she seen by her.
- 4) You and she see by her.

Correct Answer: You and she were seen by her.

Candidate Answer: You and she were seen by her.

QID : 111 - A sentence has been given in Direct/Indirect Speech. Out of the four given alternatives, select the one which best expresses the same sentence in Indirect/Direct Speech.

"Run away, children," said their uncle.

Options:

- 1) The uncle asked them to run away.
- 2) The uncle wanted them to run away.
- 3) Their uncle told the children to run away.
- 4) Their uncle say run away, children.

Correct Answer: Their uncle told the children to run away.

Candidate Answer: The uncle asked them to run away.

QID : 112 - In the following question, a word has been written in four different ways out of which only one is correctly spelt. Select the correctly spelt word.

Options:

- 1) Milennium
- 2) Milenium
- 3) Millennium
- 4) Millenium

Correct Answer: Millennium

Candidate Answer: Millennium

QID : 113 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

Teachers worldwide are stuck in a constant balancing _____ between individual liberty and occupational obligations. The Indian teacher is _____ stuck in tremendous technological, political and sociocultural changes, which are having _____ impact on performance and lifestyle. It goes without saying that teachers in India need to redefine and adjust their _____ to develop transformational and humane skills by helping bridge the deep-rooted _____ distance between the teacher and the taught.

constant balancing _____ between individual liberty

Options:

- 1) act
- 2) acts
- 3) acting
- 4) actor

Correct Answer: act

Candidate Answer: act

QID : 114 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

Teachers worldwide are stuck in a constant balancing _____ between individual liberty and occupational obligations. The Indian teacher is _____ stuck in tremendous technological, political and sociocultural changes, which are having _____ impact on performance and lifestyle. It goes without saying that teachers in India need to redefine and adjust their _____ to develop transformational and humane skills by helping bridge the deep-rooted _____ distance between the teacher and the taught.

Indian teacher is _____ stuck in tremendous technological,

Options:

- 1) also
- 2) too
- 3) all
- 4) very

Correct Answer: also

Candidate Answer: also

QID : 115 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

Teachers worldwide are stuck in a constant balancing _____ between individual liberty and occupational obligations. The Indian teacher is _____ stuck in tremendous technological, political and sociocultural changes, which are having _____ impact on performance and lifestyle. It goes without saying that teachers in India need to redefine and adjust their _____ to develop transformational and humane skills by helping bridge the deep-rooted _____ distance between the teacher and the taught.

which are having _____ impact on performance

Options:

- 1) a
- 2) the
- 3) an
- 4) one

Correct Answer: an

Candidate Answer: an

QID : 116 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

Teachers worldwide are stuck in a constant balancing _____ between individual liberty and occupational obligations. The Indian teacher is _____ stuck in tremendous technological, political and sociocultural changes, which are having _____ impact on performance and lifestyle. It goes without saying that teachers in India need to redefine and adjust their _____ to develop transformational and humane skills by helping bridge the deep-rooted _____ distance between the teacher and the taught.

and adjust their _____ to develop transformational

Options:

- 1) think
- 2) thoughtful
- 3) thought
- 4) thinking

Correct Answer: thinking

Candidate Answer: thought

QID : 117 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

Teachers worldwide are stuck in a constant balancing _____ between individual liberty and occupational obligations. The Indian teacher is _____ stuck in tremendous technological, political and sociocultural changes, which are having _____ impact on performance and lifestyle. It goes without saying that teachers in India need to redefine and adjust their _____ to develop transformational and humane skills by helping bridge the deep-rooted _____ distance between the teacher and the taught.

the deep-rooted _____ distance between the

Options:

- 1) psychology
- 2) psychological
- 3) psychologically
- 4) psychologise

Correct Answer: psychological

Candidate Answer: psychology

QID : 118 - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom/phrase.

Choose a soft option

Options:

- 1) Choose a comfortable place to spend the night.
- 2) Target the weaker players to win the match.
- 3) Do the thing that is easiest or least likely to cause trouble in a particular situation.
- 4) Always choose comfort over hardship.

Correct Answer: Do the thing that is easiest or least likely to cause trouble in a particular situation.

Candidate Answer: Do the thing that is easiest or least likely to cause trouble in a particular situation.

QID : 119 - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom/phrase.

Achilles' heel

Options:

- 1) A weakness which turns out to be a strength.
- 2) A weakness or vulnerable point.
- 3) A strength which eventually becomes your weakness.
- 4) The point where you have converted your weakness into your strength.

Correct Answer: A weakness or vulnerable point.

Candidate Answer: A weakness or vulnerable point.

QID : 120 - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which is the best substitute of the words/sentence.

Concern for one's own area or region at the expense of national or supranational unity

Options:

- 1) Eschew
- 2) Immolation
- 3) Cede
- 4) Provincialism

Correct Answer: Provincialism

Candidate Answer: Provincialism

QID : 121 - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which is the best substitute of the words/sentence.

A small piece of burning or glowing coal or wood in a dying fire

Options:

- 1) Lumber
- 2) Copse
- 3) Grove
- 4) Ember

Correct Answer: Ember

Candidate Answer: Ember

QID : 122 - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which will improve the bracketed part of the sentence. In case no improvement is needed, select "no improvement".

By now that garden (**had been reduced**) to an insignificant muddy patch.

Options:

- 1) has to reduced
- 2) have been reduced
- 3) had been reducing
- 4) no improvement

Correct Answer: no improvement

Candidate Answer: had been reducing

QID : 123 - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which will improve the bracketed part of the sentence. In case no improvement is needed, select "no improvement".

We could not afford **(to paying)** the entire sum.

Options:

- 1) paid
- 2) pays
- 3) to pay
- 4) no improvement

Correct Answer: to pay

Candidate Answer: to pay

QID : 124 - The question below consists of a set of labelled sentences. Out of the four options given, select the most logical order of the sentences to form a coherent paragraph.

On inquiry at the

A-that there were several through

B-railway station we were informed

C-trains to Dehradun every day

Options:

- 1) BAC
- 2) ACB
- 3) ABC
- 4) CBA

Correct Answer: BAC

Candidate Answer: BAC

QID : 125 - In the following question, four words are given out of which one word is correctly spelt. Select the correctly spelt word.

Options:

- 1) orientasion
- 2) oriantasion
- 3) oriantation
- 4) orientation

Correct Answer: orientation

Candidate Answer: orientation

QID : 126 - In the following question, select the related word pair from the given alternatives.

Ship : Water :: ? : ?

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए।

जहाज़ : जल :: ? : ?

Options:

- 1) Track : Train
पटरी : रेलगाड़ी
- 2) Truck : Road
ट्रक : सड़क
- 3) Land : Lion
भूमि : सिंह
- 4) Road : Cycle
सड़क : साइकिल

Correct Answer: Truck : Road

ट्रक : सड़क

Candidate Answer: Truck : Road

ट्रक : सड़क

QID : 127 - In the following question, select the related number pair from the given alternatives.

45 : 60 :: ? : ?

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म को चुनिए।

45 : 60 :: ? : ?

Options:

- 1) 25 : 30
- 2) 65 : 90
- 3) 35 : 45
- 4) 55 : 70

Correct Answer: 55 : 70

Candidate Answer: 55 : 70

QID : 128 - In the following question, select the related letter pair from the given alternatives.

MCG : NDH :: ? : ?

निम्नलिखितप्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए।

MCG : NDH :: ? : ?

Options:

- 1) IOT : JPU
- 2) JMP : LOR
- 3) RTP : SUR
- 4) FPL : GQN

Correct Answer: IOT : JPU

Candidate Answer: IOT : JPU

QID : 129 - In the following question, select the odd word from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए।

Options:

- 1) Rain
वर्षा
- 2) Steam
भाप
- 3) Ice
बर्फ
- 4) Evaporation
वाष्पीकरण

Correct Answer: Evaporation
वाष्पीकरण

Candidate Answer: Ice
बर्फ

QID : 130 - In the following question, four number pairs are given. The number on left side of (-) is related to the number on the right side of (-) with some Logic/Rule/Relation. Three are similar on basis of same Logic/Rule/Relation. Select the odd one out from the

नीचे दिए गए प्रश्न में, चार संख्या युग्म दिए गए हैं। (-) के बायीं ओर दी संख्या (-) के दायीं ओर दी गई संख्या से तर्क/नियम से सम्बंधित है। तीन उसी एक तर्क/नियम के आधार पर समान हैं। दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए।

Options:

- 1) 29 - 34
- 2) 32 - 37
- 3) 34 - 39
- 4) 24 - 28

Correct Answer: 24 - 28

Candidate Answer: 24 - 28

QID : 131 - In the following question, select the odd letter/letters from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर/अक्षरों को चुनिए।

Options:

- 1) BDF
- 2) LNP
- 3) TVX
- 4) JLP

Correct Answer: JLP

Candidate Answer: JLP

QID : 132 - Arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary.

1. Wan
2. Want
3. Walker
4. Wag
5. Wake

निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें।

1. Wan
2. Want
3. Walker
4. Wag
5. Wake

Options:

- 1) 41523
- 2) 45312
- 3) 51243
- 4) 34521

Correct Answer: 45312

Candidate Answer: 41523

QID : 133 - In the following question, select the missing number from the given series.

9, 16, 13, 12, 17, 8, ?, ?

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए।

9, 16, 13, 12, 17, 8, ?, ?

Options:

- 1) 21, 4
- 2) 4, 21
- 3) 9, 12
- 4) 12, 18

Correct Answer: 21, 4

Candidate Answer: 21, 4

QID : 134 - A series is given with one term missing. Select the correct alternative from the given ones that will complete the series.

FL, IO, LR, ?, RX

एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, जो अनुक्रम को पूरा करे।

FL, IO, LR, ?, RX

Options:

- 1) OP
- 2) OU
- 3) PS
- 4) QT

Correct Answer: OU

Candidate Answer: OU

QID : 135 - Present age of Vikas and Raman are in the ratio of 6 : 5 respectively. If the present age of Rohan is 98 years and the present age of Vikas is 3/7 of the the present age of Rohan, then after how many years the ages of Vikas and Raman would be in the ratio of 7 : 6?

विकास तथा रमन की वर्तमान आयु क्रमशः 6 : 5 के अनुपात में है। यदि रोहन की वर्तमान आयु 98 वर्ष है तथा विकास की वर्तमान आयु रोहन की वर्तमान आयु की 3/7 है, तो कितने वर्ष पश्चात विकास तथा रमन की आयु 7 : 6 के अनुपात में होगी?

Options:

- 1) 6
- 2) 7
- 3) 5
- 4) 8

Correct Answer: 7

Candidate Answer: 7

QID : 136 - From the given alternatives, select the word which **CANNOT** be formed using the letters of the given word.

Headstrong

दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है।

Headstrong

Options:

- 1) Gang
- 2) Head
- 3) Sead
- 4) Strong

Correct Answer: Gang

Candidate Answer: Gang

QID : 137 - In a certain code language, "LATIN" is written as "ODWLQ". How is "ROUTE" written in that code language?

एक विशिष्ट कोड भाषा में, "LATIN" को "ODWLQ" लिखा जाता है। इस कोड भाषा में "ROUTE" को किस प्रकार लिखा जाएगा?

Options:

- 1) HWXRU
- 2) URXWH
- 3) HTZAH
- 4) VRVLH

Correct Answer: URXWH

Candidate Answer: URXWH

QID : 138 - In a certain code language, 'x' represents '+', '+' represents 'x', 'x' represents '-' and '-' represents 'x'. Find out the answer to the following question.

$$13 + 8 \times 2 \div 25 - 10 = ?$$

किसी निश्चित कोड भाषा में 'x', '+' को प्रदर्शित करता है, '+' , 'x' को प्रदर्शित करता है, '-' , 'x' को प्रदर्शित करता है और '-' , '-' को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें।

$$13 + 8 \times 2 \div 25 - 10 = ?$$

Options:

- 1) 46
- 2) 10
- 3) 49
- 4) 19

Correct Answer: 10

Candidate Answer: 10

QID : 139 - The following equation is incorrect. Which two signs should be interchanged to correct the equation?

$$26 - 2 \times 30 \div 6 + 16 = 20$$

निम्नलिखित समीकरण गलत है। इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में अदला-बदली करना चाहिए?

$$26 - 2 \times 30 \div 6 + 16 = 20$$

Options:

- 1) ÷ and x
÷ और x
- 2) - and +
- और +
- 3) x and -
x और -
- 4) ÷ and -
÷ और -

Correct Answer: - and +

- और +

Candidate Answer: - and +

- और +

QID : 140 - If $3!5 = 30$, $6!1 = 12$ and $5!8 = 80$, then find the value of $2!2 = ?$

यदि $3!5 = 30$, $6!1 = 12$ और $5!8 = 80$, तो $2!2 = ?$ का मान ज्ञात करें।

Options:

- 1) 28
- 2) 12
- 3) 8
- 4) 32

Correct Answer: 8

Candidate Answer: 8

QID : 141 - Which of the following terms follows the trend of the given list?

XXXXXXXXY, XXXXXYY, XXXXYYY, XXXYYYY, XYYYYYY, _____.

निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गयी सूची के क्रम के अनुसार है?

XXXXXXXXY, XXXXXYY, XXXXYYY, XXXYYYY, XYYYYYY, _____.

Options:

- 1) XXXXXXXX
- 2) XXXXXXY
- 3) XYYYYYY
- 4) XXXXXYY

Correct Answer: XYYYYYY

Candidate Answer: XYYYYYY

QID : 142 - A school bus travels 5 km West, then turns South and travels 7 km, then turns East and travels 5 km, then turns to its left and travels 2 km. Where is it now with respect to the starting position?

एक स्कूल बस पश्चिम की तरफ 5 कि.मी. यात्रा करती है, फिर दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है और आगे 7 कि.मी. की यात्रा करती है, फिर पूर्व में मुड़ जाती है और आगे 5 कि.मी. की यात्रा करती है, फिर अपने बायीं ओर मुड़ जाती है और आगे 2 कि.मी. की यात्रा करती है। अपने प्रारंभ की स्थिति के संबंध में यह बस अब कहाँ है?

Options:

- 1) 5 km South
5 कि.मी. दक्षिण
- 2) 9 km South
9 कि.मी. दक्षिण
- 3) 5 km North
5 कि.मी. उत्तर
- 4) 9 km North
9 कि.मी. उत्तर

Correct Answer: 5 km South
5 कि.मी. दक्षिण

Candidate Answer: 5 km South
5 कि.मी. दक्षिण

QID : 143 - In the question two statements are given, followed by two conclusions, I and II. You have to consider the statements to be true even if it seems to be at variance from commonly known facts. You have to decide which of the given conclusions, if any, follows from the given statements.

Statement I: All cards are labels

Statement II: No posters are labels

Conclusion I: No cards are posters

Conclusion II: Some posters are cards

प्रश्न में दो कथन दिये गये हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष I और II निकाले गये हैं। आपको मानना है कि दोनों कथन सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है की दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/कौन-से निश्चित रूप से कथन द्वारा सही निकाला जा सकता है/सकते हैं, यदि कोई हो।

कथन I: सभी कार्ड लेबल होते हैं

कथन II: कोई भी पोस्टर लेबल नहीं होता है

निष्कर्ष I: कोई भी कार्ड पोस्टर नहीं होता है

निष्कर्ष II: कुछ पोस्टर कार्ड होते हैं

Options:

- 1) Only conclusion I follows
केवल निष्कर्ष I सही है
- 2) Only conclusion II follows
केवल निष्कर्ष II सही है
- 3) Both conclusions I and II follow
दोनों निष्कर्ष I और II सही है
- 4) Neither conclusion I nor conclusion II follows
ना तो निष्कर्ष I सही है ना ही निष्कर्ष II


Correct Answer: Only conclusion I follows
केवल निष्कर्ष I सही है

Candidate Answer: Both conclusions I and II follow
दोनों निष्कर्ष I और II सही है

QID : 144 -

In the following figure, rectangle represents Web designers, circle represents Bloggers, triangle represents Photographers and square represents Cricketers. Which set of letters represents Web designers who are Cricketers?

निम्नलिखित आकृति में, आयत वेब डिजाइनर को प्रदर्शित करता है, वृत्त ब्लॉगर्स को प्रदर्शित करता है, त्रिभुज फोटोग्राफरों को प्रदर्शित करता है और वर्ग क्रिकेटर्स को प्रदर्शित करता है। अक्षरों का कौन सा समूह उन वेब डिजाइनर को प्रदर्शित करता है जो क्रिकेटर हैं?



Options:

- 1) BH
- 2) IB
- 3) AG
- 4) EA

Correct Answer: IB

Candidate Answer: IB

QID : 145 - A series is given with one term missing. Select the correct alternative from the given ones that will complete the series.

HRA, GQZ, FPY, EOX, ?

एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, जो अनुक्रम को पूरा करे।

HRA, GQZ, FPY, EOX, ?

Options:

- 1) DNW
- 2) EMX
- 3) EOY
- 4) CMV

Correct Answer: DNW

Candidate Answer: DNW

QID : 146 - In the following question, select the missing number from the given series.

2, 5, 9, 14, 20, ?

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए।

2, 5, 9, 14, 20, ?

Options:

- 1) 26
- 2) 27
- 3) 30
- 4) 31

Correct Answer: 27

Candidate Answer: 27

QID : 147 - In the following question, four groups of three numbers are given. In each group the second and third number are related to the first number by a Logic/Rule/Relation. Three are similar on basis of same Logic/Rule/Relation. Select the odd one out from the given alternatives.

नीचे दिए गए प्रश्न में, तीन संख्याओं के चार समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में दूसरी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी एक तर्क/नियम से सम्बंधित है। तीन उसी एक तर्क/नियम के आधार पर समान हैं। दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए।

Options:

- 1) (3, 12, 14)
- 2) (4, 16, 13)
- 3) (6, 24, 19)
- 4) (5, 20, 16)


Correct Answer: (3, 12, 14)

Candidate Answer: (3, 12, 14)

QID : 148 -

If a mirror is placed on the line MN, then which of the answer figures is the right image of the given figure?

यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गयी उत्तर आकृतियों में से कौन-सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिम्ब होगी?



Options:

1)



2)



3)



4)



Correct Answer:




Candidate Answer:



QID : 149 -


Which of the following cube in the answer figure cannot be made based on the unfolded cube in the question figure?

निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता?



Options:


1)



2)



3)




4)



Correct Answer:



Candidate Answer:



QID : 150 -

A word is represented by only one set of numbers as given in any one of the alternatives. The sets of numbers given in the alternatives are represented by two classes of alphabets as shown in the given two matrices. The columns and rows of Matrix-I are numbered from 0 to 4 and that of Matrix-II are numbered from 5 to 9. A letter from these matrices can be represented first by its row and next by its column, for example 'B' can be represented by 41, 32 etc and 'Z' can be represented by 57, 98 etc. Similarly, you have to identify the set for the word 'FARM'.

एक शब्द केवल एक संख्या-समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या-समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि दिए गए दो आव्यूहों में है। आव्यूह-I के स्तम्भ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 और आव्यूह-II की 5 से 9 है। इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तम्भ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 'B' को 41, 32 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा 'Z' को 57, 98 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए शब्द 'FARM' के लिए समूह को पहचानना है।

Matrix I आव्यूह - I						Matrix II आव्यूह - II					
	0	1	2	3	4		5	6	7	8	9
0	I	B	A	G	J	5	Y	Y	Z	U	Q
1	C	H	G	C	M	6	Y	Y	U	O	V
2	H	F	I	G	M	7	Q	Y	Q	X	X
3	C	K	B	A	F	8	O	I	P	O	R
4	F	B	F	G	J	9	V	U	X	Z	N

Options:

- 1) 23,69,13,87
- 2) 21,33,89,24
- 3) 20,97,12,65
- 4) 14,79,32,65

Correct Answer: 21,33,89,24

Candidate Answer: 21,33,89,24

QID : 151 -

Find the value of $\left\{ (216)^{\frac{2}{3}} + (36)^{-\frac{1}{2}} \right\}$.

$\left\{ (216)^{\frac{2}{3}} + (36)^{-\frac{1}{2}} \right\}$ का मान ज्ञात करें।

Options:

1) $\frac{216}{6}$

2) $\frac{218}{6}$

3) $\frac{215}{6}$

4) $\frac{217}{6}$

Correct Answer:

$\frac{217}{6}$

Candidate Answer:

$\frac{217}{6}$

QID : 152 - Find the number of prime factor of 20790.

20790 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें।

Options:

- 1) 7
- 2) 9
- 3) 11
- 4) 13

Correct Answer: 7

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 153 -

If $p = \sqrt{72 - \sqrt{72 - \sqrt{72 - \sqrt{72 - \dots \infty}}}}$, then find the value of $2p^2 + 1$.

यदि $p = \sqrt{72 - \sqrt{72 - \sqrt{72 - \sqrt{72 - \dots \infty}}}}$ है, तो $2p^2 + 1$ का मान ज्ञात करें।

Options:

- 1) -129
- 2) -163
- 3) 129
- 4) 163

Correct Answer: 129

Candidate Answer: 129

QID : 154 -

If $x + y + z = 6$ and $xy + zx + zy = 10$, then find the value of $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$.

यदि $x + y + z = 6$ और $xy + zx + zy = 10$ है, तो $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ का मान ज्ञात करें।

Options:

- 1) 16
- 2) 26
- 3) 36
- 4) 46


Correct Answer: 36

Candidate Answer: 36

QID : 155 -

In a triangle ABC, a line is drawn from C which bisects AB at point D. Find the ratio of area of the triangles DBC and ABC.

एक त्रिभुज ABC में, C से एक रेखा खींची जाती है जो AB को D बिंदु पर समद्विभाजित करती है। त्रिभुज DBC और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें।



Options:

- 1) 1:1
- 2) 2:1
- 3) 1:2
- 4) 1:3

Correct Answer: 1:2

Candidate Answer: 1:2

QID : 156 - The area of a right angled triangle ABC, right angled at B, is 46 sq units. A median is drawn from A to BC which intersects at D. Find the area (in sq. units) of triangle ABD.

एक समकोण त्रिभुज ABC, जो B पर समकोण है, इसका क्षेत्रफल 46 वर्ग इकाई है। A बिंदु से एक माध्यिका खींची गयी जो BC को D पर काटती है। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) ज्ञात करें।

Options:

- 1) 12
- 2) 23
- 3) 46
- 4) 88

Correct Answer: 23

Candidate Answer: 23

QID : 157 - X and Y give an exam. Difference of their marks is 45 and the difference of their marks is 15% of the maximum marks. What is the maximum marks for the exam?

X तथा Y एक परीक्षा देते हैं। उनके अंकों का अंतर 45 है तथा उनके अंकों का अंतर अधिकतम अंक का 15% है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या हैं?

Options:

- 1) 180
- 2) 450
- 3) 150
- 4) 300

Correct Answer: 300

Candidate Answer: 300

QID : 158 - If $P : Q : R = 6 : 7 : 8$ and $R : S = 3 : 5$, then what is $P : S$?

यदि $P : Q : R = 6 : 7 : 8$ तथा $R : S = 3 : 5$ हैं, तो $P : S$ क्या हैं?

Options:

- 1) 18 : 25
- 2) 9 : 20
- 3) 11 : 24
- 4) 16 : 45

Correct Answer: 9 : 20

Candidate Answer: 9 : 20

QID : 159 - In what ratio must a mixture of 11% sugar strength be mixed with that of 25% sugar strength so as to get a new mixture of 13% sugar strength?

11% चीनी मात्रा वाले मिश्रण को 25% चीनी मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे 13% चीनी मात्रा वाला एक नया मिश्रण मिल जाए?

Options:

- 1) 5 : 1
- 2) 6 : 1
- 3) 7 : 2
- 4) 10 : 3

Correct Answer: 6 : 1

Candidate Answer: 6 : 1

QID : 160 - What is the average of 90, 250, 240, 204, and 616?

90, 250, 240, 204 तथा 616 का औसत क्या है?

Options:

- 1) 280
- 2) 210
- 3) 230
- 4) 255

Correct Answer: 280

Candidate Answer: 280

QID : 161 - A sum of money invested at simple interest becomes 13/10 of itself in 2 years and 6 months. What is the rate (in percentage) of interest per annum?

एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 13/10 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर (प्रतिशत में) क्या है?

Options:

- 1) 10
- 2) 15
- 3) 12
- 4) 18

Correct Answer: 12

Candidate Answer: 10

QID : 162 - The ratio of the cost price and selling price of an article is 5 : 3. What is the loss percentage?

एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5 : 3 है। हानि प्रतिशत क्या है?

Options:

- 1) 40
- 2) 20
- 3) 66.66
- 4) 33.33

Correct Answer: 40

Candidate Answer: 40

QID : 163 - A shopkeeper offers the following 3 schemes. Which scheme has the maximum discount percentage?

I. Two successive discounts of 30% and 20%

II. Buy 4 get 7

III. Buy 4 get 3 free

एक दुकानदार निम्नलिखित 3 योजनाओं का प्रस्ताव देता है। कौन सी योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है?

I. 30% तथा 20% की दो क्रमिक छूट

II. 4 खरीदें 7 पाएँ

III. 4 खरीदें 3 मुफ्त पाएँ

Options:

- 1) Only I
केवल I
- 2) Only III
केवल III
- 3) Only II and III
केवल II तथा III
- 4) All are equal.
सभी बराबर हैं।

Correct Answer: Only I

केवल I

Candidate Answer: Only II and III

केवल II तथा III

QID : 164 -

If $4^x = \sqrt[3]{1024}$, then what is the value of x?

यदि $4^x = \sqrt[3]{1024}$ है, तो x का मान क्या है?

Options:

- 1) 5/7
- 2) 4/7
- 3) 3/7
- 4) 6/7

Correct Answer: 5/7

Candidate Answer: 5/7

QID : 165 - 12 men or 30 boys can complete a work in 72 days. How many days will 48 men and 24 boys will take to complete the same work?

12 पुरुष या 30 लड़के एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 48 पुरुष उसी 24 लड़के उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे?

Options:

- 1) 20
- 2) 18
- 3) 15
- 4) 25

Correct Answer: 15

Candidate Answer: 15

QID : 166 - A train starts moving from a place P at 10:00 a.m. and arrives at another place Q at 5:30 p.m. on the same day. If the speed of the train is 50 km/hr, then what will be the distance (in km) covered by the train?

एक रेलगाड़ी एक स्थान P से प्रातः 10:00 बजे चलना आरंभ करती है तथा अन्य स्थान Q पर, उसी दिन सायं 5:30 बजे पहुँचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 50 कि.मी./घंटा है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी (कि.मी. में) क्या होगी?

Options:

- 1) 424
- 2) 390
- 3) 375
- 4) 225

Correct Answer: 375

Candidate Answer: 375

QID : 167 -

The bar graph shows 1 month's sales figures of different brands of washing machines of a certain electronics store in Rs 1000s. Study the diagram and answer the following questions.

यह बार ग्राफ़ एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के वॉशिंग मशीन के विभिन्न ब्रांडों के 1 महीने की बिक्री के आंकड़े को हजार रुपयों में दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।



Sales of which washing machine brand were the second highest?

किस वॉशिंग मशीन ब्रांड की बिक्री दूसरी सबसे उच्चतम थी?

Options:

- 1) G
- 2) D
- 3) C
- 4) A


Correct Answer: A

Candidate Answer: A

QID : 168 -

The bar graph shows 1 month's sales figures of different brands of washing machines of a certain electronics store in Rs 1000s. Study the diagram and answer the following questions.

यह बार ग्राफ़ एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के वॉशिंग मशीन के विभिन्न ब्रांडों के 1 महीने की बिक्री के आंकड़े को हजार रुपयों में दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।



What is the ratio of sales of brand G to that of brand A?

ब्रांड G और ब्रांड A की बिक्री का अनुपात क्या है?

Options:

1) 9 : 4

2) 1 : 2

3) 2 : 1

4) 4 : 9


Correct Answer: 4 : 9

Candidate Answer: 4 : 9

QID : 169 -

The bar graph shows 1 month's sales figures of different brands of washing machines of a certain electronics store in Rs 1000s. Study the diagram and answer the following questions.

यह बार ग्राफ़ एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के वॉशिंग मशीन के विभिन्न ब्रांडों के 1 महीने की बिक्री के आंकड़े को हजार रुपयों में दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।



Sales of brand D was greater than that of brand B by _____.

ब्रांड D की बिक्री ब्रांड B की तुलना में _____ से अधिक थी।

Options:

- 1) 300%
- 2) 75%
- 3) 100%
- 4) 200%

Correct Answer: 300%

Candidate Answer: 200%

QID : 170 -

The bar graph shows 1 month's sales figures of different brands of washing machines of a certain electronics store in Rs 1000s. Study the diagram and answer the following questions.

यह बार ग्राफ़ एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के वॉशिंग मशीन के विभिन्न ब्रांडों के 1 महीने की बिक्री के आंकड़े को हजार रुपयों में दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।



If the sales figures are exclusive of tax then at the rate of 18% tax how much is the tax to be paid (in Rs) on the sales of all the 7 brands of washing machines?

अगर बिक्री के आंकड़े में टैक्स शामिल नहीं है, तो 18% टैक्स की दर से सभी 7 ब्रांड वॉशिंग मशीनों की बिक्री पर कितने टैक्स (रूपयों में) का भुगतान करना होगा?

Options:

- 1) 28,800
- 2) 2,70,000
- 3) 2,88,000
- 4) 27,000

Correct Answer: 2,88,000

Candidate Answer: 2,88,000

QID : 171 - The area of a square is 42.25 cm^2 . Find its perimeter (in cm).

एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 42.25 वर्ग सेंटीमीटर है इसकी परिमाप (सेंटीमीटर में) ज्ञात करें।

Options:

- 1) 52
- 2) 26
- 3) 28
- 4) 56

Correct Answer: 26

Candidate Answer: 56

QID : 172 - If the perimeter of a semicircle is 72 cm, then find its area (in cm^2).

यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल (वर्ग सेंटीमीटर में) ज्ञात करें।

Options:

- 1) 308
- 2) 616
- 3) 160
- 4) 320

Correct Answer: 308

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 173 - The volume of a cube is 274.625 cm^3 . Find its side (in cm).

एक घन का आयतन 274.625 घन सेंटीमीटर है। इसकी भुजा (सेंटीमीटर में) ज्ञात करें।

Options:

- 1) 7.5
- 2) 6.5
- 3) 5.5
- 4) 3.5

Correct Answer: 6.5

Candidate Answer: 6.5

QID : 174 - ΔXYZ is right angled at Y. If $m\angle X = 45^\circ$, then find the value of $(\text{cosec}Z + \sqrt{3}/2)$.

ΔXYZ में Y पर समकोण है। यदि $m\angle X = 45^\circ$ है, तो $(\text{cosec}Z + \sqrt{3}/2)$ का मान ज्ञात करें।

Options:

- 1) $(2\sqrt{2}+\sqrt{3})/2$
- 2) $5/6$
- 3) $(1+2\sqrt{3})/2$
- 4) $(\sqrt{2}+1)/\sqrt{2}$

Correct Answer: $(2\sqrt{2}+\sqrt{3})/2$

Candidate Answer: $(2\sqrt{2}+\sqrt{3})/2$

QID : 175 - ΔXYZ is right angled at Y. If $\sin X = 4/5$, then what is the value of $\cos Z$?

ΔXYZ में Y पर समकोण है। यदि $\sin X = 4/5$ है, तो $\cos Z$ का मान क्या है?

Options:

- 1) $3/4$

2) $5/3$

3) $4/5$

4) $4/3$

Correct Answer: $4/5$

Candidate Answer: $4/5$

QID : 176 - A growing country is one with _____ there.

एक विकासशील देश वह है, जहां _____ है।

Options:

- 1) rising GNP at constant prices
स्थिर मूल्य पर वृद्धिमान जीएनपी
- 2) rising GNP at current prices
वर्तमान मूल्य पर वृद्धिमान जीएनपी
- 3) constant GNP at constant prices
स्थिर मूल्य पर स्थिर जीएनपी
- 4) No option is correct.
कोई विकल्प सही नहीं है।

Correct Answer: rising GNP at constant prices
स्थिर मूल्य पर वृद्धिमान जीएनपी

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 177 - The per capita income in India was ` 20 in 1867-68, was ascertained for the first time by_____.

भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में 20 थी, पहली बार यह _____ ने सुनिश्चित किया था।

Options:

- 1) MG Ranade
एम.जी. रानाडे
- 2) Sir W Hunter
सर डब्ल्यू. हंटर
- 3) RC Dutt
आर.सी. दत्त
- 4) Dadabhai Naoroji
दादाभाई नौरोजी

Correct Answer: Dadabhai Naoroji
दादाभाई नौरोजी

Candidate Answer: Dadabhai Naoroji
दादाभाई नौरोजी

QID : 178 - Which of the following rulers was not related to Sangam State Chear?

निम्न में से कौन-सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था?

Options:

- 1) Nedeon
नेडियोन
- 2) Udayin Jarral
उदयिन जेराल
- 3) Nedunjaral
नेदुनजेराल
- 4) Nedum
नेडुम

Correct Answer: Nedeon
नेडियोन

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 179 - Which of the following state was not included in the empire of Akbar?

निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था?

Options:

- 1) Kabul
काबुल
- 2) Awadh
अवध
- 3) Lahore
लाहौर
- 4) Bijapur
बीजापुर

Correct Answer: Bijapur
बीजापुर

Candidate Answer: Bijapur
बीजापुर

QID : 180 - In which month does the Earth's Perihelion position occur?

पृथ्वी की उपसौर (Perihelion) स्थिति किस महीने में होती है?

Options:

- 1) June
जून
- 2) January
जनवरी
- 3) September
सितम्बर
- 4) March
मार्च

Correct Answer: January

जनवरी

Candidate Answer: January

जनवरी

QID : 181 - The McMahon Line, which sets the boundary between India and China, is drawn to the northern boundary of which of the following states?

भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमहोन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है?

Options:

1) Jammu and Kashmir

जम्मू एवं कश्मीर

2) Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश

3) Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश

4) Arunachal Pradesh

अरुणाचल प्रदेश

Correct Answer: Arunachal Pradesh

अरुणाचल प्रदेश

Candidate Answer: Arunachal Pradesh

अरुणाचल प्रदेश

QID : 182 - Who was the Guru of the music maestro Tansen?

संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे?

Options:

1) Bisaldev

बीसलदेव

2) Haridas

हरिदास

3) Saint Gyaneshwar

संत ज्ञानेश्वर

4) Ramanuj

रामानुज

Correct Answer: Haridas

हरिदास

Candidate Answer: Haridas

हरिदास

QID : 183 - At which place a joint military exercise named 'SAMPRITI' was held in November 2017 between Bangladesh and India?

नवंबर 2017 में किस स्थान पर बांग्लादेश और भारत के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास सम्प्रीति (SAMPRITI) के नाम से किया गया था?

Options:

1) Mizoram

मिजोरम

2) Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश

3) West Bengal

पश्चिम बंगाल

4) No option is correct.

कोई विकल्प सही नहीं है।

Correct Answer: Mizoram

मिजोरम

Candidate Answer: West Bengal

पश्चिम बंगाल

QID : 184 - Who among the following has been awarded the Arjuna award 2017 for his contribution to hockey?

निम्नलिखित में से किसे हॉकी में योगदान के लिए वर्ष 2017 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया?

Options:

1) S.V. Sunil

एस.वी. सुनील

2) P.A. Rafel

पी.ए. राफेल

3) Sardar Singh

सरदार सिंह

4) Vikram Negi

विक्रम नेगी

Correct Answer: S.V. Sunil

एस.वी. सुनील

Candidate Answer: P.A. Rafel

पी.ए. राफेल

QID : 185 - Myanmar is the _____ largest country in Southeast Asia.

म्यांमार दक्षिण-पूर्व एशिया का _____ सबसे बड़ा देश है।

Options:

- 1) second
दूसरा
- 2) third
तीसरा
- 3) fourth
चौथा
- 4) fifth
पांचवां

Correct Answer: second

दूसरा

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 186 - Which among the following statements are **TRUE** regarding synthetic fibre?

- I. They melt after catching fire.
- II. They are more durable.
- III. They are prepared by a number of processes using petrochemicals.

निम्नलिखित में से कौन से कथन संश्लेषित रेशों के संदर्भ में **सत्य** है?

- I. ये आग लगने पर पिघल जाते हैं।
- II. ये अधिक टिकाऊ होते हैं।
- III. ये पेट्रोसायनों का उपयोग करके विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किये जाते हैं।

Options:

- 1) Only I and II
केवल I तथा II
- 2) Only I and III
केवल I तथा III
- 3) Only II and III
केवल II तथा III
- 4) All I, II and III
I, II तथा III सभी

Correct Answer: All I, II and III

I, II तथा III सभी

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 187 - Which of the following products can be obtained from coal processing?

निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद कोयले के प्रसंस्करण से प्राप्त किये जा सकते हैं?

Options:

- 1) Coke
कोक
- 2) Coal tar
तारकोल
- 3) Coal gas
कोयला गैस
- 4) All options are correct.
सभी विकल्प सही हैं।

Correct Answer: All options are correct.

सभी विकल्प सही हैं।

Candidate Answer: All options are correct.

सभी विकल्प सही हैं।

QID : 188 - Under which Article of Indian Constitution a citizen can move to the Supreme Court of India if his Fundamental Rights are breached?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है?

Options:

- 1) Article 21
अनुच्छेद 21
- 2) Article 1
अनुच्छेद 1
- 3) Article 32
अनुच्छेद 32
- 4) Article 226
अनुच्छेद 226

Correct Answer: Article 32

अनुच्छेद 32

Candidate Answer: Article 32

अनुच्छेद 32

QID : 189 - For how much duration members of municipalities are elected?

नगरपालिका के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं?

Options:

- 1) Two years
दो वर्ष
- 2) Three years
तीन वर्ष
- 3) Five years
पाँच वर्ष
- 4) Six years
छह वर्ष

Correct Answer: Five years
पाँच वर्ष

Candidate Answer: Five years
पाँच वर्ष

QID : 190 - Which is **NOT** an example of organism that takes in whole food material and breaks it down inside its body?

कौन सा ऐसे जीव का उदाहरण **नहीं** है जो खाद्य पदार्थों को पूरा ग्रहण कर लेते हैं तथा अपने शरीर के भीतर उसका विघटन करते हैं?

Options:

- 1) Mushrooms
मशरूम
- 2) Fish
मछली
- 3) Snake
साँप
- 4) Lizards
छिपकली

Correct Answer: Mushrooms
मशरूम

Candidate Answer: Mushrooms
मशरूम

QID : 191 - How many versions of each trait will be there in each child as per the rules for the inheritance of traits?

लक्षणों के वंशानुगति के नियमों के अनुसार प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक शिशु में कितने विकल्प होंगे?

Options:

- 1) One
एक
- 2) Two
दो
- 3) Three
तीन
- 4) Four
चार

Correct Answer: Two
दो

Candidate Answer: Two
दो

QID : 192 - In July 2017, the Government of India has increased the investment limit per fiscal year of 'Sovereign Gold Bonds Scheme' to _____ for individuals.

जुलाई 2017 में, भारत सरकार ने व्यक्तियों के लिए 'सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना' के लिए प्रति वित्तीय वर्ष निवेश सीमा _____ तक बढ़ा दी है।

Options:

- 1) 5 kg
5 कि.ग्रा.
- 2) 4 kg
4 कि.ग्रा.
- 3) 6 kg
6 कि.ग्रा.
- 4) 10 kg
10 कि.ग्रा.

Correct Answer: 4 kg
4 कि.ग्रा.

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 193 - The first flight of SARAS PT1N, the new upgraded version of indigenous developed transport aircraft SARAS, took off from _____.

देश में ही विकसित परिवहन विमान सारस का नया उन्नत संस्करण सारस पीटी1एन ने पहली उड़ान _____ से भरी।

Options:

- 1) Hyderabad
हैदराबाद
- 2) New Delhi
नई दिल्ली
- 3) Bengaluru
बेंगलुरु
- 4) Chennai
चेन्नई

Correct Answer: Bengaluru
बेंगलुरु

Candidate Answer: New Delhi
नई दिल्ली

QID : 194 - In April 2017, the announcement was made to change the Base year for GDP Calculation. The new Base year will be _____.

अप्रैल 2017 में, जीडीपी गणना के आधार वर्ष को बदलने के लिए घोषणा की गई थी। नया आधार वर्ष _____ होगा।

Options:

- 1) 2011-12
- 2) 2015-16
- 3) 2017-18
- 4) 2016-17

Correct Answer: 2017-18

Candidate Answer: 2015-16

QID : 195 - On 10 April 2017, Lok Sabha passed Constitution (123rd Amendment) Bill, 2017. The Bill seeks to insert a new article 342-A which empowers whom to notify the list of socials educationally backward classes of that state/union territory?

10 अप्रैल, 2017 को लोकसभा ने संविधान (123-वें संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया। यह विधेयक एक नए अनुच्छेद 342-ए को सम्मिलित करना चाहता है जो किसे उस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को सूचित करने के लिए शक्ति देता है?

Options:

- 1) Prime Minister
प्रधानमंत्री
- 2) President
राष्ट्रपति
- 3) Vice President
उपराष्ट्रपति
- 4) Finance Minister
वित्त मंत्री

Correct Answer: President
राष्ट्रपति

Candidate Answer: President
राष्ट्रपति

QID : 196 - A body of mass 3 kg accelerates from 10 m/s to 20 m/s in 5 seconds due to the application of a force on it. Calculate the magnitude of this force (in N).

3 कि.ग्रा द्रव्यमान वाली वाली वस्तु पर 5 सेकंड तक बल लगाने पर उसका वेग 10 मी./से. से बढ़कर 20 मी./से. हो जाता है। इस बल की गणना (N में) करें।

Options:

- 1) 6
- 2) 18
- 3) 12
- 4) 36

Correct Answer: 6

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 197 - The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the _____.

वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का _____ कहते हैं।

Options:

- 1) motion
गति
- 2) direction
दिशा
- 3) velocity
वेग
- 4) displacement
विस्थापन

Correct Answer: displacement
विस्थापन

Candidate Answer: displacement
विस्थापन

QID : 198 - The weather reports are prepared by the _____ Department of the Government.

मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के भारत ____ विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है।

Options:

- 1) Ecological
पर्यावरण
- 2) Meteorological
मौसम
- 3) Economical
आर्थिक
- 4) Topological
संस्थानिक

Correct Answer: Meteorological
मौसम

Candidate Answer: Meteorological
मौसम

QID : 199 - Which of the statements given below are correct?

- A) In 2017, Stephen Curry played for the NBA team Milwaukee Bucks.
- B) Sebastian Vettel won the Formula One 2017 Singapore Grand Prix.
- C) Roger Federer won the Tennis 2017 Miami Open Men's Singles.

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- A) वर्ष 2017 में स्टीफन करी एनबीए टीम मिलवौकी बक्स के लिए खेले थे।
- B) सेबस्तियन वेट्टल ने फॉर्मूला वन 2017 सिंगापुर ग्रा प्रि जीती थी।
- C) रोजर फ़ेडरर ने टेनिस 2017 मियामी ओपन मेन्स सिंगल्स जीता।

Options:

- 1) Only C
केवल C
- 2) B and C
B और C
- 3) A and C
A और C
- 4) A, B and C
A, B और C

Correct Answer: Only C
केवल C

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 200 - In Microsoft Word, File, edit, view etc. are provided in _____.

माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, फ़ाइल, एडिट, व्यू आदि _____ में उपलब्ध होता है।

Options:

- 1) Standard tool bar
स्टैंडर्ड टूलबार
- 2) Menu bar
मेन्यू बार
- 3) Formatting toolbar
फॉर्मेटिंग टूलबार
- 4) Status bar
स्टेटस बार

Correct Answer: Menu bar
मेन्यू बार

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]